

2019-20

UPENDAR YADAV KE UTHAR TO YADAV TOLA

Schedule XLV-Form No. 134

BENIPUR

DIVISION

MMMSY-SC

BENIPUR

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

RAJEEV KUMAR YADAV

M.B No- 1159

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी
पुस्तक में कुल - 100 टक्का है जिस को
सहायक अभियंता अशोक कुमार ग्रामीण
कार्य विभाग राज्य प्रमंडल
बेनीपुर नाम से निर्गत किया जाता है

18/5/2020

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेनीपुर (दरभंग)

अशोक
18/5/2020

Sch. XLV-Form No. 134

BENIPUR DIVISION

BENIPUR SUB-DIVISION

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल
बेनीपुर

Measurement Book

No. 1159

Name of officer अशोक कुमार

सहायक अभियंता - बेनीपुर

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1st on A/c bill				
Name of work - Const. of road from Upendra					
yadav ke ghar to yadav Tola					
(Korhali) under MMPSY (SU)					
Agency's name - Sri Rajeev K. Yadav					
Attdo - Alingar via Kumbho Nadiyami					
Dist. Darbhanga - 841405					
Agri. No - 63 SRD/2019-20 (MAGS)					
Est. Cost					
Maint. Cost					
Agri. value - Rs. 608215/-					
Rate - 0.02% below.					
Date of Start - 17/11/2020					
Date of Comp. (As per R.R.) 16/12/2020					
① clearing & grubbing road & land					
940 x 35 Can 22 3270 ± 0.325 m ²					
② Const. of embankment with stone					
material - P 20 - 40 - C/P					
chain of Area Mean 91 Area time volume					
0 1.84 - - -					
50 1.80 1.82 50 91					

Continuation

Abstract of work

① clearing & grubbing material.

Qty side T B F. 182 (1)

0.329 Hect. ex. 49496.70/Hect. ex. 16284 = w

② Const. of embankment with 100 m bal.

Qty side T B F. 16284 - 2 (9)

1050.97³ ex. 139.62/m³ — b. 146727 = w

③ Const. of embankment with 100 m bal.

Qty side T B F. 1402842 (6)

450.38 m³ ex. 175.11/m³ — b. 78866 = w

④ E/W in excavation in 10.20 m

Qty side T B F. 384 - 3

55.89 m³ ex. 260.59/m³ — b. 14564 = w

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Co of area
	No.	L.	B.	D.	
(5) PIR RCC M15 in floor concrete slab					
Qty in cu ft. 36 - 4					
4.86 m ³ cb. 5801.82/m ³ - B. 28197200					
(6) PIR B/W concrete (114) in H/W door					
Qty in cu ft. 36 - 5					
42.06 m ³ cb. 5858.29/m ³ - B. 24640000					
(7) PIR RCC M15 type H/W ground floor					
Qty in cu ft. 36 - 6					
22.5 m ³ cb. 2621.51/m ³ - B. 5898400					
(8) 1st class brick work in wall					
Qty in cu ft. 36 - 7					
6.39 m ³ cb. 449.56/m ³ - B. 2869000					
(9) Excavation for road work in site					
Qty in cu ft. 36 - 8					
88.24 m ³ cb. 7410/m ³ - B. 6536000					
(10) PIR G.P. for 1st floor					
Qty in cu ft. 46 - 9					
457.11 m ³ cb. 2900.37/m ³ - B. 132578800					
					192521500
Material Statement					
ETW - 1501.25 m ³					23102600
Sand - 132 m ³					1925200
S/Metal - 444 m ³					21754930
Bolac - 21410 m ³					
Supplies & etc. Rate					
ETW - 2.38/m ³					
G.P. 9.2 - 49.85/m ³					
B/W (114) - 3.86/m ³					
PC M15 - 46.54/m ³					
1st class brick - 1410/m ³					

8/2/2020
Jm

Continuation
Journal
8/2/2020
AG

8/2/2020
Jm